

परिशिष्ट सारणी VI.7: एनबीएफसी-एमएल का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22	2022-23	2023-24	छ1: 2024-25
1	2	3	4	5
ए. कुल आय	2,63,729	3,22,712	4,01,842	2,28,365
(i) निधि आधारित आय	2,45,353	2,79,241	3,68,892	2,12,037
	(93)	(86.5)	(91.8)	(92.9)
(ii) शुल्क आधारित आय	11,452	14,522	18,211	10,117
	(4.3)	(4.5)	(4.5)	(4.4)
बी. व्यय	2,08,718	2,30,457	2,79,370	1,63,223
(i) वित्तीय व्यय	1,25,178	1,40,759	1,69,159	99,662
	(60)	(61.1)	(60.6)	(61.1)
जिसमें से, ब्याज भुगतान	58,582	72,485	94,985	48,447
	(28.1)	(31.5)	(34)	(29.7)
(ii) परिचालन व्यय	37,493	47,232	58,601	35,189
	(18)	(20.5)	(21)	(21.6)
(iii) अन्य	46,046	42,465	51,610	28,372
	(22.1)	(18.4)	(18.5)	(17.4)
सी. कर प्रावधान	13,426	14,904	23,958	10,971
डी. कर पूर्व लाभ	55,011	92,255	1,22,473	65,142
ई. निवल लाभ	41,585	77,351	98,515	54,171
एफ. कुल आस्तियां	28,72,954	32,86,069	37,09,086	40,79,806
जी. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)				
(i) आय	9.2	9.8	10.8	11.2
(ii) निधिगत आय	8.5	8.5	9.9	10.4
(iii) शुल्क आय	0.4	0.4	0.5	0.5
(iv) व्यय	7.3	7.0	7.5	8.0
(v) वित्तीय व्यय	4.4	4.3	4.6	4.9
(vi) परिचालन व्यय	1.3	1.4	1.6	1.7
(vii) कर प्रावधान	0.5	0.5	0.6	0.5
(viii) निवल लाभ	1.4	2.4	2.7	2.7
एच. आय के लिए लागत (प्रतिशत)	79.1	71.4	69.5	71.5

- टिप्पणियां:**
1. डेटा अनंतिम हैं।
 2. कुल आय में गैर-वित्तीय आय भी शामिल है, जो सारणी में रिपोर्ट नहीं की गई है।
 3. वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए दिया हुआ डेटा 31 मार्च 2024 तक अपर लेयर और मिडिल लेयर में आने वाले एनबीएफसी (सीआईसी, एचएफसी और एसपीडी को छोड़कर) से संबंधित हैं।
 4. कोष्ठकों में दिये आंकड़े संबंधित कुल का शेयर (प्रतिशत में) है।
 5. प्रतिशत आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।

स्रोत: एनबीएफसी की तिमाही विवरणियां, आरबीआई